




५ सामान्य गलत धारणाएँ

रिटायरमेंट प्लान के बारे में



रिटायरमेंट के लिए योजना बनाना अभी जल्दबाजी होगी

जितनी जल्दी आप योजना बनाना और निवेश करना शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा समय आपके पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के माध्यम से बढ़ने के लिए मिलेगा, जिससे आपका रिटायरमेंट तनाव मुक्त होगा।



मेरा पीएफ और ग्रेच्युटी पर्याप्त है

अकेले पीएफ मुद्रास्फीति को मात नहीं दे सकता या लंबी अवधि के खर्चों को कवर नहीं कर सकता - अलग-अलग निवेश लंबी अवधि के लिए संपत्ति बनाने की कुंजी हैं।



रिटायरमेंट के बाद खर्चे कम हो जाते हैं

स्वास्थ्य देखभाल और जीवनशैली की लागत अक्सर बढ़ जाती है, जिससे आपकी बचत की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य बीमा जरूरी हो जाता है। फिर, आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, समय के साथ आपका प्रीमियम उतना ही कम होगा।



रिटायरमेंट के बाद मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं होंगी

पारिवारिक सहायता, चिकित्सा देखभाल और लंबी अवधि के लिए ज़रूरतें जारी रहेंगी - पहले से योजना बनाने से इन जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है



मैं बिना किसी योजना के रिटायरमेंट से पहले पर्याप्त कमाई कर सकता हूँ

आज की उच्च आय स्पष्ट लंबी अवधि के लिए निवेश योजना के बिना आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मिथकों को तोड़ें और चिंतामुक्त एवं सुखद रिटायरमेंट के लिए तुरंत योजना बनाना शुरू करें!

एचएसबीसी म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशकों को शिक्षित और जागरूक करने की पहल

वन टाइम नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रिया, सेबी स्कोर (<https://www.scores.gov.in>) वन-टाइम नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रिया, सेबी स्कोर (<https://scores.sebi.gov.in/scores-home>) सहित शिकायत निवारण प्रक्रिया। निवेशकों को केवल पंजीकृत म्यूचुअल फंड के साथ ही लेन-देन करना चाहिए, जिन्हें सेबी की वेबसाइट पर मध्यस्थ/बाजार अवसंरचना संस्थान (<https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html>) के अंतर्गत सत्यापित किया जाना चाहिए। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई सभी 'निवेशक शिक्षा और जागरूकता पहल' के बारे में जानकारी के लिए निवेशक एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर 'निवेशक शिक्षा' पर सेक्शन देख सकते हैं।

केवल भारतीय अधिकार क्षेत्र में वितरण के लिए उद्देश्यित दस्तावेज़, भारत के बाहर या एनआरआई के लिए नहीं है। यदि भारत के बाहर किसी के द्वारा इस जानकारी का उपयोग किया जाता है तो एचएसबीसी एमएफ किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए, वेबसाइट देखें।

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, योजना से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें।

हमें फॉलो करें

